



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur

चीफ वार्डेन कार्यालय

डॉ० राज कुमार, चीफ वार्डेन
संपर्क सूत्र : 9451160911

सूचना

दिनांक: 20/10/2017

विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों में अन्तःवासी सभी छात्र/ छात्रों को सूचित किया जाता है कि वें छात्रावास में निम्न निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे :

1. परिसर में सभी स्थानों पर आपके पास **पहचान पत्र** (अथवा प्रवेश पर्ची की छाया प्रति जिस पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित आपकी फोटो चस्पा हो) होना अति आवश्यक है।
2. छात्रावासों में **गुटखा/पान खाना इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित है**, दोषी पाए जाने पर अर्थ दंड का भुगतान करना होगा।
3. छात्रावासों की मेश में **भोजन की थाली फेकना/ किसी भी कर्मचारी/सुरक्षाकर्मी के साथ अभद्रता करना** अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। भोजन अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत/सुझाव के लिए वार्डेन से संपर्क करे।
4. **छात्रावास की संपत्ति** आपकी अपनी है उसका **दुरुपयोग न करें**।
5. कुछ छात्र एवं छात्राएं विद्युत् उपकरणों जैसे **हीटर/ इंडक्शन हीटर का चोरी छिपे उपयोग करते है**। यह **उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है**, दोषी पाए जाने पर छात्रावास से निष्कासन तक भी किया जा सकता है।
6. बिना वार्डेन की आज्ञा के छात्रावास में **बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है**।
7. कुछ छात्र एवं छात्राओं की **हॉस्टल-फीस अभी भी बकाया है** वो **दिनांक 30/10/2017 तक अपनी फीस अवश्य जमा कर दें** अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
8. प्रत्येक दो माह के अंतराल पर **हॉस्टल फीडबैक फॉर्म** भरकर अपने वार्डेन के पास जमा कर दें।
9. छात्रावासों में **कूड़ा केवल कूड़ेदानों में डाले** ताकि छात्रावास को स्वच्छ रखने में आपका सहयोग प्राप्त हो सके और हम सभी बीमारी एवं गन्दगी से दूर रहे।
10. शौचालयों एवं स्नान घर में **पानी की टोंटी उपयोग न होने पर तुरंत बंद कर दे**।
11. **बिजली के बोर्ड इत्यादि न तोड़े** ऐसा करते पकड़े जाने पर या दोषी पाए जाने पर अर्थ दंड का भुगतान करना होगा।

चीफ वार्डेन के पद पर रहते हुए मैं हमेशा आपको अच्छी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहूँगा परन्तु आप सभी के सहयोग एवं सुझावों की मदद से ही मैं ऐसा कर सकूँगा।

(डॉ० राज कुमार)